



मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

 drishtiias.com/hindi/mains-practice-question/question-1523/pnt



प्रश्न :

ई-हाट जैसी पहल न केवल महिलाओं के उद्यम को पोषित करने का माध्यम है , बल्कि यह उन्हें ई-शासन से भी जोड़ती है । टिप्पणी करें ।

17 Aug, 2017 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था

उत्तर :

महिला ई-हाट महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक सार्थक पहल है । यह महिलाओं के लिये ऑनलाइन विपणन मंच है जहाँ वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकती हैं । ई-हाट की पहल राष्ट्रीय महिला कोष की वेबसाइट पर ही की गई है । यह विशिष्ट ई-मंच महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बल देगा ।

ई-हाट की विशेषताएं-

- यह 'डिजिटल इंडिया' का हिस्सा है और 'स्टैंड अप इंडिया' के रूप में देश भर में महिलाओं के लिये एक पहल है ।
- महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को प्रतिबिंबित करती विधाएँ इस मंच पर प्रस्तुत हो सकती हैं ।
- खरीदार और विक्रेता की सुविधा के लिए उत्पाद की तस्वीरें, विवरण, लागत और निर्माता के पते के साथ मोबाइल नंबर भी ई-हाट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है ।
- इसमें विक्रेताओं को खरीदार से सीधे भुगतान प्राप्त होगा ।
- उत्पादों की श्रेणी में शॉलें, साड़ियाँ, ड्रेस फैब्रिक्स, सजावट का सामान, कालीन, मिट्टी के बर्तन, पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के कपड़े, मोमबत्तियाँ, लिनेन आदि शामिल हैं ।

महिला ई-हाट अब तक 3.5 लाख लाभार्थियों तथा 26000 से अधिक स्वसहायता समूहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर चुका है । पोर्टल ने 2016 में स्कॉच-गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किया था तथा इसे “भारत में शीर्ष 100 परियोजनाओं” में से एक के रूप में दर्ज किया गया था । महिला उद्यमियों की सृजनात्मकता को निरंतर सहारा और सहयोग प्रदान करके उनको सशक्त बनाना और अर्थव्यवस्था में उनकी वित्तीय भागीदारी को सुदृढ़ करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है । साथ ही ऑनलाइन व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से यह न केवल महिलाओं के साइबर-ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि ई-शासन में उनके योगदान को भी सुनिश्चित करता है ।